



कार्ड पर उत्कीर्ण किए जाने के लिए नाम / NAME TO BE EMBOSSED ON THE CARD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कार्ड क्रमांक (बैंक द्वारा भरा जाएगा) / CARD NUMBER (to be filled by the Bank)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

शाखा / Branch

**व्यक्तिगत विवरण / PERSONAL PARTICULARS**

नाम : श्री/श्रीमती/सुश्री :

Name : Mr./Mrs./Ms. (उप नाम / SURNAME) (प्रथम नाम / FIRST NAME) (मध्य नाम / MIDDLE NAME)

जन्म तिथि / Date of Birth :

डाक पता / MAILING ADDRESS :

दूरभाष / Phone: कार्यालय / Office :

मोबाईल / Mobile :

ई-मेल / E-mail :

**खाता विवरण / ACCOUNT PARTICULARS**

क्र.सं./Sr.	शाखा/Branch	खाते का प्रकार/Type**	खाता संख्या/Acct. Number	खाता खोलने की तारीख/Date Opened
01				
02				
03				
04				
05				
06				

(खाते का प्रकार - बचत/चालू/ओडी)\*\*/ Type : SB/CD/OD)\*\*

एटीएम स्क्रीन पर तीसरी भाषा (अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त) में प्रदर्शन हेतु मेरा विकल्प निम्नलिखित है। (कृपया एक को / निशान लगाएं)\*\*

My Option for the third language (beside English & Hindi) for ATM screen display is (pl. tick one)\*\*

- बंगाली / Bengali  गुजराती / Gujarati  गुरुमुखी / Gurumukhi  कन्नड़ / Kannada  
 मलयालम / Malayalam  मराठी / Marathi  तमिल / Tamil  तेलुगु / Telugu

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सही है। मैं स्टारलिंक्स इंटरनेशनल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड/एटीएम कार्ड पर लागू निबंधनों और शर्तों की पावती देता हूँ/देती हूँ तथा मैंने इन निबंधनों और शर्तों को पढ़ लिया है एवं स्वीकार कर लिया है। मैं बैंक से एतद्वारा मुझे स्टारलिंक्स इंटरनेशनल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड/एटीएम कार्ड जारी करने तथा इस के प्रयोग संबंधी सभी आहरणों के लिए मेरे उपर्युक्त प्राथमिक खाते को नामे करने का अनुरोध करता हूँ/करती हूँ।

I declare that the above information is correct. I acknowledge receipt of terms and conditions applicable to Starlinks International Debit-cum-ATM Card/ATM Card and I have read and accepted the same. I hereby request the Bank to issue me a Starlinks International Debit-cum-ATM Card/ATM Card and to recover the applicable charges/fees from time to time to the debit of my primary Account.

मैं, उपर्युक्त घोषणा के बावजूद स्टारलिंक्स इंटरनेशनल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड/एटीएम कार्ड से सम्बंधित/असम्बंधित अपने सभी जमा खातों के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित प्राथमिक खाते में धारित वर्तमान और भावी अपनी सभी जमा राशियों पर बैंक के ग्रहणाधिकार को स्वीकार करता हूँ/करती हूँ।

I, without prejudice to the above, accept Bank's Lien on all my deposits present and future held in the primary account as well as in any other deposit account whether linked to Starlinks International Debit-cum-ATM Card/ATM Card facility or not.

मैं जानता हूँ/जानती हूँ कि मुझे स्टारलिंक्स इंटरनेशनल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड/एटीएम कार्ड जारी किए जाने पर मेरे खाते से जुड़ा विद्यमान एटीएम कार्ड निष्क्रिय कर दिया जायेगा।  
 I understand that upon issuance of the Starlinks International Debit-cum-ATM Card to me, the existing ATM Card Linked to my account will be deactivated.

दिनांक/Date :

हस्ताक्षर/Signature

**केवल बैंक के प्रयोग के लिए / FOR BANK USE ONLY**

शाखा/Branch कोड नं./Code No.

ग्राहक के प्राथमिक खाते का संचालन संतोषजनक है और हमने उपरोक्त विवरणों को सत्यापित कर लिया है, जहां भी आवश्यक हुआ द्वितीयक खातों के धारण का साक्ष्य भी हमने प्राप्त कर लिया है। कार्ड जारी करने हेतु स्वीकृत। / The Primary account of the customer is conducted satisfactorily and we confirm having verified the above particulars. Proof of holding secondary accounts is obtained wherever necessary. Approved for issuance of card.

दिनांक/Date :

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर/Signature of Branch Manager कोड/Code :

नोट/Note : अनिवासी (बाह्य) अनिवासी (सामान्य) खातों के मामले में द्वितीयक खातों की अनुमति नहीं है।

In case of Non-Resident (External) / Non-Resident (Ordinary) accounts, secondary accounts are not permitted.

\*जहां लागू न हो उसे काट दें।/Strike out whichever is not applicable.

\*\*कृपया पास बुक/खाते के विवरण के अनुसार खाते का प्रकार लिखें।/\*\*Please mention type of account as per the passbook/statement of account.

कृपया सत्यापन के लिए पास बुक/खाते का विवरण भी प्रस्तुत करें।/Please also present the passbook/statement of account for verification.

\*\*\*सुविधाएं बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार के तहत दी जाएगी।/Facility to be provided solely at the Bank's discretion.